



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2009/कार्तिक 8, 1931

No. 627]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2009/KARTIKA 8, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2009

सं. 160/2009-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 791(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सीमा-शुल्क (उत्पाद शुल्केय माल के विनिर्माण के लिए रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 1996 को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को सीमा-शुल्क (उत्पाद शुल्केय माल के विनिर्माण के लिए रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2009 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा-शुल्क (उत्पाद शुल्केय माल के विनिर्माण के लिए रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 1996 में नियम 7 में,—

(i) खण्ड (क) में अन्त में 'और' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ख) में अन्त में "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त" शब्दों की जगह "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त और" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) ऐसे संशोधित खंड (ख) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) उक्त सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त के पास अगले महीने के दसवें दिन इस नियमावली के साथ संलग्न 'अनुबंध' में यथा विहित प्रपत्र में मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।"

'अनुबंध'

मासिक विवरणी

महीने की विवरणी .....

(नियम 7(ग) देखें)

आयातित माल का नाम

क्रम सं.	रियायती दर पर आयातित माल का विवरण	महीने के दौरान आयातित माल का ब्यौरा					महीने के दौरान विनिर्मित माल	रियायती शुल्क दर पर माल प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट उद्देश्य	माल का प्रयोग विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया या नहीं। निर्यात के मामले में एआई-1/एआई-2 के ब्यौरे सहित निर्यातित माल का उल्लेख
		महीने के पहले दिन अथवा	महीने के दौरान प्राप्त	कालम(3) और (4) का कुल योग	महीने के दौरान लक्षित उद्देश्य के लिए उपयोग की गई मात्रा	महीने के अंतिम दिन अथवा	प्रकृति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(11)

(नोट: प्रयुक्त आयातित माल के और विनिर्मित माल के प्रत्येक प्रकार अथवा वर्ग के लिए पृथक प्रविष्टि तैयार की जानी चाहिए।)

**घोषणा**

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि अधोहस्ताक्षरी ने मैं/हमारे कारखाने में रखे रिकार्डों और खातों से उक्त विवरणों का मिलान कर लिया है और यह कि ये प्रत्येक दृष्टि से सही और प्रामाणिक हैं और सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्केय माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) संशोधन नियमावली, 2009 के अनुसार हैं।

दिनांक

विनिर्माता के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं नाम, कंपनी की मुहर<sup>33</sup>

स्थान

[फा. सं. 450/63/2009-सी.शु.-IV]

नवराज गोयल, अवर सचिव

**टिप्पण :-** मूल नियमावली अधिसूचना सं. 36/96-सीमा शुल्क(मै.टै.), दिनांक 23 जुलाई, 1996(सा.का.नि. 305(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996) के जरिए प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं.12/2002-सीमा शुल्क(मै.टै.), दिनांक 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. (अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के जरिए की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2009

No. 160/2009-Customs (N.T.)

**G.S.R. 791(E).—** In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996, namely:-

1. (1) These rules may be called the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Rules, 1996, in rule 7, -

(i) in Clause (a), at the end, the words "and" shall be omitted;

(ii) in Clause (b), at the end, for the words "Deputy Commissioner of Central Excise.", the words, "Deputy Commissioner of Central Excise; and" shall be substituted;

(iii) after Clause (b) so amended, the following shall be inserted, namely:-

"(c) submit a monthly return, in the format prescribed as "Annexure" appended to these rules, to the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner by the tenth day of the following month."

"Annexure"

## MONTHLY RETURN

Return for the month of .....  
[see Rule 7(c)]

Name of the imported goods:

Sl. No.	Description of goods imported at concessional rate	Details of goods imported during the month				Goods manufactured during the month		Specified purpose for procuring the goods at the concessional rate of duty	Whether the goods used for specified purpose or not. In case of export, specify the quantity exported with details of ARE-1/ARE-2.
		Opening balance On the 1 <sup>st</sup> day of the month	Received during the month	Total of Col. (3) & (4)	Quantity consumed for the intended purpose, during the month	Closing balance on the last day of the month	Nature	Quantity	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									(11)

(Note: Separate entries should be made for each variety or class of imported goods used and goods manufactured.)

## Declaration

I/We hereby declare that the undersigned have compared the above particulars with the records and books maintained by my / our factory and that they are true and correct in every respect and are in accordance with the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Amendment Rules, 2009.

Date:

Signature and name  
of the authorised person  
of the manufacturer.  
Seal of the company.

Place:

[F. No. 450/63/2009-Cus. IV]

NAVARAJ GOYAL, Under Secy.

**Note:-** The principal rules were published vide Notification No.36/96-Customs (N.T.) dated 23<sup>rd</sup> July, 1996, [G.S.R. 305 (E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996] and were last amended vide Notification No.12/2002-Customs (N.T.) dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, G.S.R. (E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002.